



KUWER INDUSTRIES LIMITED

A-71-72, Sector-58, Noida-201301, Gautam Budh Nagar. (U.P.)

Tel 91-120-2580088

E-mail: info@kuwer.com, Website: www.kuwer.com

Date: 17th November, 2025

To,

Bombay Stock Exchange Limited

Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai-400 001

Sub: Publication of Un-Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025 – Disclosure under Reg. 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: (BSE Scrip-530421)

Dear Sir/Madam,

In compliance of provisions of Regulations 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the newspaper copies of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 16th November, 2025, in which the Un-Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025, have been published. The aforesaid results have been approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 14th November, 2025.

This is for your kind information & record purpose, please do needful.

Thanking You

For Kuwer Industries Limited

Ashish Sharma
(Company Secretary & Compliance Officer)
M. No. A42140

Regd. Off. D-1004, 1st Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065

CIN No. L74899DL1993PLC 056627



JAIN MARMO INDUSTRIES LIMITED

CIN : L14101RJ1981PLC002419

Regd. Office : 47/10, kiran Path, Mansarovar, Jaipur-302020

Phone No. + 91- 294 2441666, 2441777, Fax: + 91- 294 2440581

Website: www.jainmarmo.com EMAIL: jainmarmo_udr@yahoo.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2025

Rs. in Lakhs

Particulars	Quarter Ended 30th September 2025 (Un-Audited)	Quarter Ended 30th September 2024 (Un-Audited)	Half year Ended 30th September 2025 (Un-Audited)
Total income from operations (net)	50.65	35.80	142.69
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.31	-2.75	16.65
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.31	-2.75	16.65
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1.04	-2.22	12.22
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1.04	-2.22	12.22
Equity Share Capital	313.06	313.06	313.06
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
1. Basic and Diluted:	0.03	-0.07	0.39

(A)The above Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th November 2025

Note:- The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30 2025 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.jainmarmo.com)

For More Information Please Scan



On behalf of the Board

For Jain Marmo Industries Limited


Sd/-

HEMLATA DANGI

COMPANY SECRETARY

Place:- Udaipur

Date:- 14.11.2025

ANS INDUSTRIES LIMITED						
		CIN: L15130HR1994PLC032362				
Regd. Office: 136KM, Vill & PO-Shamgarh, District-Karnal, Haryana -132116						
E-mail: ansagro.limited@gmail.com Website: www.ansfoods.com						
Notice is hereby given that following share certificates issued by the Company are stated to be lost/misplaced and the registered holders thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificates.						
1. Name of the Shareholder: MEENAKSHI CHHIBBA						
Folio No.	Name of the Shareholder	Share Certificate No.	Distinctive Numbers		No. of Shares	
			From	To		
0002124A	MEENAKSHI CHHIBBA	3325-7099	4274001	4651500		377500
2. Name of the Shareholder: DINESH SHARAD Folio No. 0002124 other details herein below:						
Share Certificate No.	Distinctive Numbers		No. of Shares	Share Certificate No.	Distinctive Numbers	
	From	To			From	To
89-2098	3629001	3927500	298500	18628-19427	5705001	5785000
24329-24334	6275101	6275700	600	24779-24780	6320101	6320300
24875-24879	6329701	6330200	500	24921-24929	6334001	6335200
25533-25540	6395501	6396300	800	26482-26485	6490401	6490800
26532-26535	6495401	6495800	400	26552-26555	6497401	6497800
26622-26625	6504401	6504800	400	26627-26630	6504901	6505300
26632-26635	6505401	6505800	400	27057-27060	6547901	6548300
27191-27194	6561301	6561700	400	27642-27646	6606401	6606900
28255-28263	6667701	6668600	900	29111-29118	6753301	6754100
29535-29543	6795701	6796600	900	29545-29548	6796701	6797100
29550-29553	6797201	6797600	400	29555-29558	6797701	6798100
29560-29563	6798201	6798600	400	29565-29568	6798701	6799100
29570-29573	6799201	6799600	400	29575-29578	6799701	6800100
29585-29588	6800701	6801100	400	29590-29593	6801201	6801600
29610-29613	6803201	6803600	400	29604-29609	6822601	6823200
29984-29992	6840601	6841500	900	29994-30002	6841601	6842500
31094-31097	6951601	6952000	400	31099-31102	6952101	6952500
31104-31107	6952601	6953000	400	31114-31117	6953601	6954000
31134-31138	6955601	6956100	500	31169-31172	6959101	6959500
31204-31207	6962601	6963000	400	31209-31212	6963101	6963500
31214-31217	6963601	6964000	400	31243-31247	6966501	6967000
31270-31278	6969201	6970100	900	31280-31288	6970201	6971100
31330-31338	6975201	6976100	900	31465-31473	6988701	6989600
31475-31483	6989701	6990600	900	32162-32191	7058401	7061400
32917-32922	7133901	7134500	600	34254-34321	7267601	7274400
35122-35124	7354401	7354700	300	35632-35640	7405401	7406300
36205-36214	7462701	7463700	1000	36816-36824	7523801	7524700
37230-37267	7565201	7569000	3800	37278-37282	7570001	7570500
37315-37358	7573701	7578100	4400	39358-39374	7778001	7779700
39392-39459	7781401	7788200	6800	46499-46512	8492101	8493500
47391-47406	8581301	8582900	1600	47408-47423	8583001	8584600
47550-47568	8597201	8599100	1900	48110-48138	8653201	8656100
52728-52736	9115001	9115900	900	52780-52792	9120201	9121500
52822-52834	9124401	9125700	1300	52974-53036	9139601	9145900
53039-53047	9146101	9147000	900	53059-53067	9148101	9149000
53069-53080	9149101	9150300	1200	53890-53898	9231201	9232100
53910-53918	9233201	9234100	900	53920-53928	9234201	9235100
53930-53938	9235201	9236100	900	Total No of Shares: 459400		
The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who have any claim(s) with the Company in respect of the said share certificates should lodge such claims at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company will proceed with issuance of duplicate share certificates.						
For ANS Industries Limited Sd/- Umesh Kumar Company Secretary						
Date: 15.11.2025 Place: New Delhi						

BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LIMITED				
Regd. office: ALTF, 101, NH-19, CRRI, Ishwar Nagar, Okhla, New Delhi-110044				
Corp Office: C-13, Second Floor,Sector-58, Noida-201301.				
CIN: L74999DL1994PLC062967 Website: www.bgil.in				
Extract of Un-audited Quarterly Financial Results For The Quarter/ Half Year ended 30th September, 2025				
(Rs. in Lakhs)				
S. No.	Particulars	(Un-audited) Quarter/Half year Ended 30.09.2025	(Un-audited) Quarter/Half year Ended 30.09.2024	Audited Year Ended 31.03.2025
1	Total income from operations	0.00	2.00	27.25
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before Exceptional Items and Extraordinary items)	(59.46)	(53.41)	(155.33)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items and Extraordinary items)	(59.46)	(53.41)	(155.33)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items and Extraordinary items)	45.50	(54.63)	(447.70)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	48.19	(54.63)	(445.01)
6	Equity Share Capital	1584.31	1584.31	1584.31
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous Year.	0	0	0
8	Earning Per Share of Rs. 10 each. 1. Basic: 2. Diluted:	0.30	(0.34)	(2.81)
Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for quarter ended 30th September,2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com, www.nseindia.com and company website www.bgilfilms.com. For Bharatiya Global Infomedia Limited Sd/- Rakesh Bhatia Chairman cum Managing Director				
Place: Noida Date: 13th November, 2025				

SHASHANK TRADERS LIMITED							
CIN : L52110DL1985PLC021076							
Regd. Off. : 702-A, Anunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- 110001							
Phone: 011-43571041; Fax: 011-43571047, Website : www.shashankinfo.in , Email : info@shashankinfo.in							
STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025							
(Rs. in Lacs except EPS)							
Sl. No.	Particulars	For the Quarter ended 30-Sep-25 (Unaudited)	30-Jun-25 (Unaudited)	30-Sep-24 (Unaudited)	30-Sep-25 (Unaudited)	30-Sep-24 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)
1	Income from Operation	-	-	-	-	-	4.84
	(a) Net Sales/Revenue from Operations	-	-	-	-	-	-
	(b) Other Operating Income	-	-	-	-	-	-
	(c) Other Income	-	-	-	-	-	-
	Total Income	-	-	-	-	-	4.84
2	Expenses	-	-	-	-	-	-
	a) Cost of Materials consumed	-	-	-	-	-	-
	b) Purchase of Stock-in-trade	-	-	-	-	-	3.51
	c) Changes in Inventory of Finished goods, Work-in-progress and Stock-in-trade	-	-	-	-	-	-
	d) Employee Benefits Expenses	0.79	0.78	0.45	1.57	0.90	1.35
	e) Finance Costs	-	-	-	-	-	0.01
	f) Depreciation and Amortisation expense	-	-	-	-	-	-
	g) Other expenses	1.56	1.17	1.03	2.73	2.19	13.45
	Total Expenses	2.35	1.95	1.48	4.30	3.09	18.32
3	Profit/(Loss) before Exceptional Items and tax (1-2)	(2.35)	(1.95)	(1.48)	(4.30)	(3.09)	(13.48)
4	Exceptional Items	-	-	-	-	-	-
5	Profit/(Loss) before tax (3 + 4)	(2.35)	(1.95)	(1.48)	(4.30)	(3.09)	(13.48)
6	Tax Expense	-	-	-	-	-	-
	- Current tax	-	-	-	-	-	-
	- Deferred tax	-	-	-	-	-	-
	- Short Provision of earlier year	-	-	-	-	-	-
	Total Tax Expenses	-	-	-	-	-	-
7	Profit/(Loss) for the period (5-6)	(2.35)	(1.95)	(1.48)	(4.30)	(3.09)	(13.48)
8	Other Comprehensive Income (net of tax)	-	-	-	-	-	-
9	Total Other Comprehensive Income for the period	(2.35)	(1.95)	(1.48)	(4.30)	(3.09)	(13.48)
10	Total Comprehensive Income for the period (7 + 9)	(2.35)	(1.95)	(1.48)	(4.30)	(3.09)	(13.48)
11	Paid-up equity share capital (face value of Rs 10/- per share)	309.38	309.38	309.38	309.38	309.38	309.38
12	Reserves excluding revaluation reserves (Reserves as per balance sheet of Previous Accounting year)	-	-	-	-	-	(89.35)
13	Earning per share (EPS) of Rs 10/- each (not annualized)	-	-	-	-	-	-
	(1) Basic	(0.08)	(0.06)	(0.05)	(0.14)	(0.10)	(0.44)
	(2) Diluted	(0.08)	(0.06)	(0.05)	(0.14)	(0.10)	(0.44)
Note :- 1 The above Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 has been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th November, 2025. The Statutory Auditors have conducted a limited review on the above unaudited financial results for the quarter & half year ended 30th September, 2025. 2 The Company operates in a single segment and the results pertain to a single segment in accordance with IND AS 108-Operating Segment. 3 Previous year/period figures have been regrouped/arranged, wherever necessary to make them comparable with the current period figures. 4 The Company has adopted Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs. This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable. 5 The format for un-audited quarterly results as prescribed in SEBI's Circular/CFD/CMD/15/2015 dated November 30, 2015 has been modified to comply with requirements of SEBI's circular dated 5.12.2016, IND AS and Schedule III (Division II) to the Companies Act, 2013 applicable to the companies that are required to comply with IND AS. 6 Debit and Credit Balances are subject to confirmation from Parties. 7 The aforesaid unaudited results for the quarter & half year ended 30th September, 2024 will be available on the website of the company i.e., www.shashankinfo.in							
For and on behalf of Board of Directors of Shashank Traders Limited Sd/- (Praveen Jaswant Rai Jain) Managing Director DIN : 01776424							
Place: New Delhi Date : 14.11.2025							

Protium Finance Limited											
(Formerly known as Growth Source Financial Technologies Ltd.)											
Registered & Corporate Office Address: 7th Floor, Block B2, Phase - I Nirton Knowledge Park, Pahadi Village, Off. Western Express Highway, Cama Industrial Estate, Goregaon (E), Mumbai- 400063, Maharashtra.											
SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES											
E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (b) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.											
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower/ Mortgagee (s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Protium Finance Ltd. the same shall be referred herein after as Protium Finance Ltd. The Secured Assets will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis through E-Auction. It is hereby informed to General public that we are going to conduct public E-Auction through website http://bankauctoins.in/											
1. Account Number 2. Name of borrower, co-borrower, 3. Mortgagors	4. Date of Demand Notice 5. Amount as per Demand Notice U/s 13(2) 6. Date of Symbolic Possession 7. Amount as on	8. Descriptions of the property/Properties	9. Reserve Price 10. Earnest Money Deposit 11. Bid Increment Amount (In Rs.)	12. E-Auction Date and Time 13. EMD Submission Last Date 14. Inspection Date							
1. GS064EEL2266003 2. (A) Bihari Ji Traders Through Its Proprietor Yogesh Garg (B) Yogesh Garg S/O Om Prakash (C) Narendra S/O Om Prakash (D) Afroz Garg (E) Sanjay S/O Om Prakash All Having Address At House No. 07 Kasturi Enclave Tuls Bagh Phase 2, Kharsa No. 645 Mauza Mau Mustakill Tehsil And District Agra Uttar Pradesh 282005 And Also At, Pushpanjali Phase2, Dayal Bagh, Agra Uttar Pradesh 282005	4. Date: 31 Jan 2025 5. Rs. 24,20,271.68/- (Rupees Twenty-Four Lakh Twenty Thousand Two Hundred Seventy-One and Sixty-Eight Paise Only) as on 30th Jan 2025 with further interest 18% from 30th Jan 2025 until payment in full amount along with other charges as demanded in our notice, within the sixty day period of 60 days from the date of this notice. 6. 27th Jan-2025 7. Rs. 24,20,271.68/- (Twenty Nine Lakh Ninety Five Thousand Nine Hundred Thirty One Rupees and Twenty-One Paise Only) as on date 5th Sep 2025	All That Piece And Parcel Of Property Being Plot No.7, House No.07 Tuls Bagh Phase 2, Kharsa No. 645 Mauza Mau Mustakill Musrakill Tehsil And Dist Agra (U.P.) Admeasuring - 80 Sq. Yards Or 75.24 Sq. Mtrs. Having Admeasurment East North West 1/4 Fl. 6 Inch North 1/4 Section 3 L Inch, Covered Area 75.24 Sq.Mts together All Other Right, Buildings Improvements And Easements Appurtenant Thereto.	Rs. 1925000/- (Rupees Nineteen Lakh Two Thousand Five Hundred Thousand and 0/-) Rs. 92,500/- (Rupees One Lakh Ninety Two Thousand Five Hundred Only) 11. (Bid Incremental Value Rs. 5,000/-)	12. 03-Dec-25 at 11:00 am to 2:00 PM with unlimited extension of 5 min each) 13. 02-Dec-25 up to 5:00 PM. 14. 20-Nov-25 BETWEEN 11:00 AM TO 5:00 PM							
1. All interested participants / bidders are requested to visit the website http://bankauctoins.in/ & https://protium.co.in/ For details, help, procedure and online trading on e-auction, prospective bidders may Contact Mr. Nitesh D Pawar contact number: 8142000725 / 8142000665.email id: nitesh@bankauctoins.in / info@bankauctoins.in											
• For further details on terms and conditions please visit http://bankauctoins.in/ & https://protium.co.in/ to take part in e-auction.											
THIS IS ALSO A STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(b)/ Rule 9 (1) of SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002.											
DATE: 16.11.2025, PLACE: AGRA, UTTAR PRADESH Sd/-, For Protium Finance Limited Authorised Officer											